



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-11.07.2022

थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त रितिक डोम गिरफ्तार कब्जे से चोरी गया माल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0272/2022 धारा 380/411 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त रितिक डोम पुत्र राजू डोम निवासी शिवपुर थाने के सामने पोखरे के पास बनी पानी टंकी के पास थाना शिवपुर वाराणसी को शिवपुर थाने के सामने पोखरे के पास से आज दिनांक-11.07.22 को समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया 02 अदद ड्रिल मशीन, 02 अदद प्लाई कटर, 01 अदद ग्लाइण्डर, 03 अदद चौसी, 01 अदद कचक, 01 अदद रेती बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-10.07.22 को वादी मुकदमा श्री संजय विश्वकर्मा पुत्र स्व0 छविनाथ विश्वकर्मा निवासी छतरीपुर थाना शिवपुर वाराणसी ने अभियुक्त रितिक डोम के द्वारा मकान के अन्दर घुसकर 02 ड्रिल मशीन, एक प्लाई कटर मशीन, एक ग्लाइण्डर मशीन, 03 चौसी, एक कचक, एक लोहे की रेती चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0-0272/2022 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 विवेक सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रितिक डोम पुत्र राजू डोम निवासी शिवपुर थाने के सामने पोखरे के पास बनी पानी टंकी के पास थाना शिवपुर वाराणसी, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- आसमानी रंग की बोरी में किंग कम्पनी की 02 अदद ड्रिल मशीन एक नीला व एक लाल रंग का, मैट्रिक्स कम्पनी का 01 अदद प्लाई कटर मशीन लाल रंग, 01 अदद पुरानी प्लाई कटर मशीन, 01 अदद ग्लाइण्डर मशीन रंग पीला, 03 अदद चौसी, एक अदद कचक, एक अदद रेती बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0 विवेक सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2-उ0नि0 प्र0 प्रशान्त शिवहरे थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3-का0 सुशील कुमार मौर्या थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

